

तुरंत रिलीज के लिए

## **ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में छह नए मेम्बर्स को शामिल किया जा रहा है**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (30 मार्च, 2022) – हर वर्ष, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम (बी.एस.एच.एफ.) (Brampton Sports Hall of Fame) (BSHF) उन व्यक्तियों की उपलब्धियों का जशन मनाता है, जिन्होंने ब्रैम्पटन में स्पोर्ट्स के विकास में शानदार योगदान दिया है। 2022 में, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम, स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए शामिल होने वाले छह नए मेम्बर्स का स्वागत करता है।

**फ्रैंक फाशिया (Frank Fascia)** को, बेसबॉल में उनके समर्पण के लिए बिल्डर श्रेणी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने 1983 में ब्रैम्पटन में माइनर बेसबॉल खेलना शुरू किया और वे एन.सी.ए.ए. (NCAA) में खेलने गए थे। वे, 1991 में ब्रैम्पटन सीनियर ट्विन्स (Brampton Senior Twins) के संस्थापक मेम्बर थे, 2007 में ब्रैम्पटन माइनर बेसबॉल इंक. (Brampton Minor Baseball Inc.) के कोच थे और उन्होंने सी.ओ.बी.ए. (COBA) और बेसबॉल ओनटैरियो (Baseball Ontario) के साथ कई प्रकार की पोजीशनों पर सेवा दी है। 2022 में, शेरिडन कॉलेज (Sheridan College) में शुरुआती बेसबॉल टीम के हेड कोच के लिए उनका नाम दिया गया था।

**प्राइमनाथ (प्राइम) परसाउड (Pramnauth (Pram) Persaud)** को, क्रिकेट में उनके समर्पण के लिए बिल्डर श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव को, पिछले 35 वर्षों से ओनटैरियो में उनकी भागीदारी से पहले, 10 वर्ष तक क्यूबेक (Quebec) में वृद्धि और विकास में उनकी सेवा के 45 वर्षों के लिए, 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिकेट हॉल ऑफ फेम (United States of America Cricket Hall of Fame) में शामिल किया गया था। उन्होंने, ब्रैम्पटन में क्रिकेट की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे क्रिकेट का विस्तार, केवल पांच वर्ष में ही 15 क्लब्स से बढ़कर 62 तक हो गया।

**पैट ओ'टूल (Pat O'Toole)** को, लैकरोस में उनके समर्पण के लिए एथलीट श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वे 1998 से ब्रैम्पटन में रह रहे हैं। उन्हें माइनर, मेजर और इंटरनेशनल लेवल्स पर, बॉक्स और फील्ड लैकरोस, दोनों में खिलाड़ी और कोच के तौर पर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने रोचेस्टर नाइटहॉक्स (Rochester Knighthawks) के साथ उनके 16 सीजनों में से 12 खेले, जिसके साथ वे सहायक कोच के तौर पर अभी भी सक्रिय हैं। वे ब्रैम्पटन माइनर लैकरोस एसोसिएशन (Brampton Minor Lacrosse Association) के पूर्व प्रेजिडेंट भी हैं।

**टमारा टाथम (Tamara Tatham)** को, बास्केटबॉल में उनके समर्पण के लिए एथलीट श्रेणी में शामिल किया जाएगा। उनके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खेलने के कैरियर में शामिल हैं, 2007 में शुरुआत करके, कैंनेडा का प्रतिनिधित्व करते हुए 164 गेम्स, जिनमें से 157 सीनियर लेवल पर हैं। उन्होंने 2015 एफ.आई.बी.ए. अमेरिका (2015 FIBA America) के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट और 2015 पैन एम गेम्स (2015 Pan Am Games) में गोल्ड मेडल जीता। वे 2012 और 2016 के ओलंपिक्स (Olympics) में भी खेलीं और विदेश में कई खिताब हासिल किए हैं। रिटायर होने के बाद, उन्होंने कई टीमों के लिए कोच के तौर पर सेवा दी।

**देव शर्मा (Dev Sharma)** को, ट्रेक और फील्ड में उनके समर्पण के लिए वेटर्न श्रेणी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कई मेडल जीते हैं, 2015 में 80 वर्ष का होने का बाद भी। 1988 से 2016 तक, उन्होंने कैनेडियन मास्टर्स एथलेटिक्स इनडोर एंड आउटडोर चैंपियनशिप्स (Canadian Masters Athletics Indoor and Outdoor Championships) और ओनटैरियो मास्टर्स एथलेटिक्स इनडोर एंड आउटडोर चैंपियनशिप्स (Ontario Masters Athletics Indoors and Outdoor Championships) में मेडल जीतने सहित, 203 मेडल एकत्र किए। उन्होंने ब्रैम्पटन में 2016 की कैनेडा 55+ गेम्स (Canada 55+ Games) और ब्रैम्पटन डिस्ट्रिक्ट 55+ गेम्स (Brampton District 55+ Games) में, मुकाबलों में हिस्सा लिया और मेडल जीते।

**वॉली स्लोकी (Wally Slocki)** को, मार्शल आर्ट्स में उनके समर्पण के लिए वेटर्न श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वे ब्लैक बेल्ट हैं और उन्होंने भागीदार के तौर पर कई ट्रॉफीज जीती हैं। उन्हें अमेरिका (United States) में हर जगह, टूर्नामेंट्स में "लेजेंडरी कैनेडियन" ("Legendary Canadian") के तौर पर सम्मानित किया जाता था। उन्होंने, 1967, 1968 और 1970 में कैनेडियन चैंपियनशिप और 1972, 1973 और 1974 में ओनटैरियो चैंपियनशिप जीती थी। स्लोकी को सिखाने का जुनून है और 1960 के अंत में उन्होंने, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में ईस्टर्न कराटे (Eastern Karate) खोला था, जिसका बाद में विस्तार हो गया और उसे कैनेडियन स्कूल ऑफ हेल्थ एंड सेल्फ डिफेंस (Canadian School of Health and Self Defense) के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अनुकूलित कार्पोरेट मैनेजमेंट सेमिनारों में शिक्षित करना और सिखाना जारी रखा हुआ है।

ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम और इस वर्ष के शामिल होने वाले मेम्बर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/bshf](http://www.brampton.ca/bshf) पर जाएं।

ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम की स्थापना 1979 में, खेल के प्रति समर्पित और इसके शौकीन व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के साथ मिलकर की गई थी। यह 7575 केनेडी रोड साउथ (7575 Kennedy Road South) पर सी.ए.ए. सेंटर (CAA Centre) में स्थित है।

### 2022 का इंडक्शन समारोह

41<sup>वां</sup> वार्षिक ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम इंडक्शन समारोह, मंगलवार, 3 मई को शाम 6 बजे, द रोज ब्रैम्पटन (The Rose Brampton) में होगा। इसमें स्पोर्ट्सनेट सेंट्रल (Sportsnet Central) और स्पोर्ट्सनेट 590 द फैन (Sportsnet 590 The FAN) के केन रीड (Ken Reid) मुख्य स्पीकर होंगे। टिकट की कीमत 55 डॉलर है और इसे [www.rosetheatre.ca](http://www.rosetheatre.ca) पर खरीदा जा सकता है।

### 2023 के नामांकन

क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिसने हमारे शहर में खेलों में कोई शानदार योगदान दिया है? 2022 का नामांकन फार्म डाउनलोड करें! नामांकन 15 जून, 2022 तक स्वीकार किए जाएंगे।

### हवाले

“2022 के ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम क्लास को बढ़ाई हो! इसमें शामिल होने वाले मेम्बरों ने, लीडरशिप और संचालन दर्शाते हुए, हमारी कम्युनिटी में स्पोर्ट्स में शानदार योगदान दिए हैं और उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें गर्व है कि ये मेम्बर, ब्रैम्पटन को अपना घर कहते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम, हमारे शहर में स्पोर्ट्स के अतीत, वर्तमान और भविष्य को सम्मान देता है। 2022 के शामिल होने वाले मेम्बर खास लीडर हैं, जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स कैरियरों के द्वारा, ब्रैम्पटन को सम्मानित और प्रेरित किया है। मैं, हमारी कम्युनिटी में स्पोर्ट्स का जशन मनाने के लिए, हर किसी को 3 मई को इस वर्ष के व्यक्तिगत इंडक्शन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण देता हूँ।”

- जेफ बोमैन (Jeff Bowman), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; मेम्बर, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम, 2022 के ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले मेम्बरों की घोषणा करने के लिए उत्साहित हैं। छह नए मेम्बर ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी में स्पोर्ट्स को आगे ले जाने में प्रतिबद्धता निभाई है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जिसने ब्रैम्पटन में स्पोर्ट्स में शानदार योगदान दिया है – तो उसे 2023 के लिए नामांकित करें।”

- डग विलेन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; मेम्बर, ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम, हमारी कम्युनिटी में स्पोर्ट्स और उन शानदार व्यक्तियों का जशन मनाता है, जो ब्रैम्पटन में एथलेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। मई में इंडक्शन समारोह के लिए हमसे जुड़ें और 2023 के लिए किसी को नामांकित करें।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)